



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

21 चैत्र 1936 (श0)  
(सं0 पटना 372) पटना, शुक्रवार, 11 अप्रील 2014

---

सं0 वि0 2-51/99-454/वि0

वित्त विभाग

संकल्प

9 अप्रील 2014

विषय:—बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) किये जाने के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1088 दिनांक 29.07.2013 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) केन्द्र सरकार के अनुरूप लागू किया गया था ।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-5 (1)-बी(पी.डी)/2014 दिनांक 04.03.2014 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष-2014-15 के लिए दिनांक 01.04.2014 के प्रभाव से ब्याज की दर 8.7%(आठ दशमलव सात प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि अभिदाताओं के खाते में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान दिनांक 01.04.14 के प्रभाव से ब्याज दर 8.7% (आठ दशमलव सात प्रतिशत) लागू होगा ।

4. जहाँ तक पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान-सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण का प्रश्न है, इस संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

जयंत कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 372-571+10-डी0टी0पी0।

**Website:** <http://egazette.bih.nic.in>